

अमर उजाला

मोधापुर में नकली दवाइयों की फैक्टरी पकड़ी

देहरादून ब्यूरो Updated Sat, 22 Aug 2020 10:55 PM IST

रुड़की। माधोपुर में ड्रग विभाग की टीम ने एक नकली दवाई बनाने वाली फैक्टरी पकड़ी है। विभाग को फैक्टरी में बड़ी मात्रा में नकली दवाई मिली है। साथ ही पैकिंग करने वाली मशीन भी बरामद की है। फैक्टरी में एक नामी कंपनी के नाम से दवाइयां बनाई जा रही थी। देर रात तक विभाग की कार्रवाई जारी रही।

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित माधोपुर गांव में ड्रग विभाग को एक फैक्टरी में नकली दवाई बनाने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत मिलने पर ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर एमएस राणा ने अपनी टीम और पुलिस को साथ लेकर फैक्टरी में छापा मारा। इस दौरान टीम को एक नामी कंपनी के नाम से बनाई जा रही बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां मिली। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी मामले में कार्रवाई चल रही है। दवाइयां एक नामी कंपनी के नाम से बनाई जा रही थी या बाहर से आ रही थी, इसकी अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने बताया कि बीआर फार्मा कंपनी के नाम से दवाई की फैक्टरी चल रही थी। कंपनी के मालिक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उधर, बताया जा रहा है कि फैक्टरी से पकड़ी गई दवाइयों की कीमत लाखों रुपये में है। वहीं, देर रात तक ड्रग विभाग की टीम की कार्रवाई जारी रही।

पहले भी पकड़ी जा चुकी हैं फैक्टरी

रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में नकली दवाइयों की फैक्टरी पकड़ने जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई नकली दवाई बनाने वाली फैक्टरी ड्रग विभाग की टीम पकड़ चुकी है। वहीं, बताया जा रहा है कि शनिवार को जिस फैक्टरी पर ड्रग विभाग ने छापामारी की है। उसमें एक नामी कंपनी के नाम से एंटी बाइोटिक दवाइयां बनाई जा रही थी।

Source : <https://www.amarujala.com/uttarakhand/roorkee/fake-medicines-factory-caught-in-madhapur-roorkee-news-drn3538732136>

अमर उजाला